



Belmont Safeguarding Families पक्ष-समर्थन सेवा

सिटी ऑफ बेलमोंट पारिवारिक और घरेलू हिंसा (एफडीवी) के मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है और यह संभावित रूप से दुर्व्यवहार या नियंत्रणकारी व्यवहार का अनुभव कर रहे निवासियों के समर्थन के लिए सेवाएँ उपलब्ध कराती है।



क्या मुझे दुर्व्यवहार का अनुभव हो रहा है?

यदि आप इस बारे में सुनिश्चित नहीं हैं कि आपको और आपके बच्चों को परिवार के अन्य सदस्यों (जिसमें आपका/आपकी जीवनसाथी भी शामिल है) की ओर से अपमानजनक व्यवहारों का अनुभव हो रहा है, तो सहायता के लिए कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं:

- क्या आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका जीवनसाथी ऐसी बातें बोलता/बोलती या करता/करती है, जिनकी वजह से आपको अपनी सुरक्षा को लेकर भय महसूस होता है?
- क्या आप अलगाव महसूस कर रहे/रही हैं या क्या आप इस व्यक्ति के साथ अपने संबंध के कारण दोस्तों और परिवार से खुद को दूर कर रहे/रही हैं?
- क्या नियंत्रणकारी, अपमानजनक या शर्मिंदा करने वाला व्यवहार एक नियमित रूप लेता जा रहा है?

- क्या आपको लगता है कि आपके रिश्ते में जो समस्याएँ हैं, वे सभी आपकी गलती के कारण हैं?
- क्या आप ऐसा महसूस करते/करती हैं, या क्या आपको महसूस कराया जा रहा है कि आप पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हैं या आप बेकार हैं?
- क्या आप अपने संबंध के बारे में, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस बारे में हमेशा सोचते रहते/सोचती रहती हैं?
- क्या आप मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक नुकसान की धमकियों, या पीछा किए जाने की वजह से भय या डर महसूस करते/करती हैं?

RUAH
COMMUNITY SERVICES
Open Hearts. Bold Strides.





हाँ?

यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है, तो अपमानजनक और नियंत्रणकारी व्यवहार के बारे में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी पेशेवर से बात करना सहायक हो सकता है। आपके, आपके परिवार और दुर्व्यवहार के उपयोग का चयन करने वाले व्यक्ति के लिए समर्थन उपलब्ध है।



हम इस प्रकार से सहायता कर सकते हैं

- घरेलू दुर्व्यवहार और नियंत्रणकारी व्यवहार के नियमित रूप के बारे में जानकारी
- सुरक्षा योजना बनाने के बारे में जानकारी
- पारिवारिक हिंसा निषेध आदेशों के आवेदनों के बारे में जानकारी
- पारिवारिक हिंसा से जुड़े आपराधिक जुर्म की सूचना देने में समर्थन
- अनौपचारिक परामर्श सहायता और बच्चों और युवा लोगों के लिए विशेषज्ञ रेफरल

- न्यायालय में पक्ष-समर्थन और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में स्थित मजिस्ट्रेट न्यायालयों के माध्यम से समर्थन
- विशेषज्ञ खतरा आकलन और खतरा प्रबंधन योजना
- लगातार रूप से समर्थन और फॉलो-अप

Belmont Safeguarding Families पक्ष-समर्थन सेवा
निःशुल्क रूप से सुलभ है।

आप सोमवार से शुकवार सुबह 8बजे से शाम 4बजे के बीच हमारी सेवाओं का उपयोग कर सकते/सकती हैं।

बात करने के लिए या एक-के साथ-एक गोपनीय मुलाकात की बुकिंग करने के लिए बस 0466 438 360 पर कॉल करें।

RUAH
COMMUNITY SERVICES
Open Hearts, Bold Strides.



Belmont Safeguarding Families पक्ष-समर्थन सेवा Ruah Community Services, सिटी ऑफ बेलमोंट और बेलमोंट पुलिस के बीच एक साझेदारी है, जो सिटी ऑफ बेलमोंट में पारिवारिक और घरेलू हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को सेवाएँ उपलब्ध कराती है।